



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 738 राँची, गुरुवार, 20 सितम्बर, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

-----

**संकल्प**

16 सितम्बर, 2019

**विषय:-छविगृह मालिकों द्वारा Maintenance Charge प्रभार्य किये जाने के संबंध में।**

**संख्या-3/न०वि०/सिनेमा(विविध)-104/2017-3796--** नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-662, दिनांक-25.02.2015 के द्वारा झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 2000 के नियम-27 में उप नियम-(3) का समावेश करते हुए विभिन्न वर्गों के छविगृहों के लिए Maintenance Charge का प्रावधान किया गया है, जो देय करों के अतिरिक्त है।

2. विदित हो कि माल एवं वस्तु कर प्रणाली (GST) में सभी करों का समावेश हो गया है। चूँकि Maintenance Charge माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली के Service की श्रेणी में आता है। अतः झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 2000 के अंतर्गत प्रावधानित Maintenance Charge के अधिरोपण को स्पष्ट करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

3. उल्लेखनीय है कि छविगृह मालिकों के द्वारा छविगृहों की साफ-सफाई, रख-रखाव, सुरक्षा उपलब्ध कराने आदि की बेहतर सुविधाएँ दर्शकों को उपलब्ध कराएँ जाने के उद्देश्य से छविगृह मालिकों द्वारा Maintenance Charge लगाए जाने का प्रावधान किया गया है।

4. अतएव उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में समयक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए जाते हैं:-

- (i) नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-662, दिनांक-25.02.2015 के प्रावधान के आलोक में सिनेमा टिकटों में अधिरोपित प्रावधानित Maintenance Charge माल एवं सेवा कर (GST) प्रभावी होने के पश्चात् भी यथावत रहेंगे।
  - (ii) Maintenance Charge की राशि टिकटों/विपत्रों पर स्पष्ट अंकित किया जाएगा।
  - (iii) छविगृह मालिक Maintenance Charge पर माल एवं सेवा कर (GST) का भुगतान करेंगे।
  - (iv) छविगृह मालिकों के द्वारा Maintenance Charge के रूप में वसूल की गयी राशि छविगृहों के रख-रखाव/सुरक्षा/सुविधाएँ पर व्यय किया जाएगा।
5. प्रस्ताव पर वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, राँची की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

**अजय कुमार सिंह**

सरकार के सचिव ।

-----